

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6)

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1969/पौष 14, 1890

No. 6]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1969/PAUSA 14, 1890

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January 1969

G.S.R. 43/Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 5 of the said Act shall be exercisable also by the Additional Chief Director and Director (Sugar Technical), Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food).

[No. F. 10-3/63-SEXP.]

K. L. PASRICHA, Jt. Secy.

(17)

